



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 601]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, नवम्बर 29, 2001/अग्राहायण 8, 1923

No. 601]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 2001/AGRAHAYANA 8, 1923

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2001

सा.का.नि. 873(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 के साथ पठित धारा 58क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) तीसरा संशोधन, नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियम, 1975 में,—

(क) नियम 2 में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ड) "शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में है;'

(ख) नियम 3 के उपनियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ड) "एक करोड़ रुपये से कम की शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि वाली कोई कंपनी लोक निक्षेप आमंत्रित नहीं करेगी;''

(ग) नियम 8 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8क ब्याज की शास्तिक दर :—ऐसे लोक निक्षेपों की दशा में जो परिपक्व हो जाते हैं और जिनका दावा किया जाता है किन्तु असंदत्त बने रहते हैं, अतिशोध्य

अवधि के लिए अठारह प्रतिशत दर ब्याज की शास्तिक संदत्त होगी। लघु निक्षेपकर्ता द्वारा किए गए निक्षेप की दशा में ब्याज की शास्तिक दर वार्षिक आधार पर समाधेय बीस प्रतिशत होगी।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "लघु निक्षेपकर्ता" पद का वही अर्थ होगा जो उसका अधिनियम की धारा 58कक के स्पष्टीकरण में है।"

[सं. 1/17/2000-सीएल-5]

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी.—कंपनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 अधिसूचना सं. सा.का.नि. 43(अ) तारीख 3-2-1975 भारत का राजपत्र (असाधारण), तारीख 3-2-1975 के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :—

1. का.आ. 523(अ), तारीख 18-9-1975
2. का.आ. 684(अ), तारीख 29-11-1975
3. सा.का.नि. 427(अ), तारीख 29-6-1976
4. सा.का.नि. 820(अ), तारीख 24-9-1976
5. सा.का.नि. 965(अ), तारीख 29-12-1976
6. सा.का.नि. 385(अ), तारीख 17-6-1977
7. सा.का.नि. 386(अ), तारीख 17-6-1977
8. सा.का.नि. 424(अ), तारीख 27-6-1977
9. सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30-12-1977
10. सा.का.नि. 200(अ), तारीख 30-3-1978
11. सा.का.नि. 252(अ), तारीख 27-4-1978
12. सा.का.नि. 341(अ), तारीख 29-6-1978
13. सा.का.नि. 378(अ), तारीख 17-7-1978
14. सा.का.नि. 586(अ), तारीख 21-12-1978
15. सा.का.नि. 109(अ), तारीख 21-3-1980

16. सा.का.नि. 185(अ), तारीख 1-4-1980
17. सा.का.नि. 380(अ), तारीख 24-6-1980
18. सा.का.नि. 435(अ), तारीख 18-7-1980
19. सा.का.नि. 546(अ), तारीख 24-9-1980
20. सा.का.नि. 187(अ), तारीख 20-3-1981
21. सा.का.नि. 44(अ), तारीख 12-1-1982
22. सा.का.नि. 286(अ), तारीख 19-3-1985
23. सा.का.नि. 372(अ), तारीख 19-4-1985
24. सा.का.नि. 482(अ), तारीख 5-6-1985
25. सा.का.नि. 2(अ), तारीख 2-1-1986
26. सा.का.नि. 358(अ), तारीख 1-4-1987
27. सा.का.नि. 620(अ), तारीख 1-7-1987
28. सा.का.नि. 850(अ), तारीख 12-10-1987
29. सा.का.नि. 551(अ), तारीख 7-6-1990
30. सा.का.नि. 39(अ), तारीख 10-1-1992
31. सा.का.नि. 814(अ), तारीख 19-10-1992
32. सा.का.नि. 744(अ), तारीख 10-12-1993
33. सा.का.नि. 767(अ), तारीख 1-12-1995
34. सा.का.नि. 155(अ), तारीख 19-3-1997
35. सा.का.नि. 385(अ), तारीख 25-5-2001
36. सा.का.नि. 689(अ), तारीख 25-9-2001

**MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY
AFFAIRS**

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2001

G.S.R. 873(E).—In exercise of the powers conferred by section 58A read with section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, in consultation with Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Third Amendment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, —

(a) in rule 2, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :—

‘(e) “net owned fund” has the same meaning as assigned to it in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)’;

(b) in rule 3, in sub-rule (1), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :—

‘(e) “no company with a net owned fund of less than rupees one crore shall invite public deposits”’;

(c) after rule 8, the following rule shall be inserted, namely :

“8A Penal rate of interest.—A penal rate of interest of eighteen per cent shall be paid for the overdue period in case of

public deposits matured and claimed but remaining unpaid. In case of deposit made by a small depositor, the penal rate of interest shall be twenty per cent compoundable on an annual basis

Explanation—For the purposes of this rule, the expression “a small depositor” has the same meaning as assigned to it in the explanation to Section 58AA of the Act.”

[No. 1/17/2000-CL.V]

A. RAMASWAMY, Jt. Secy.

FOOT NOTE : The Companies (Acceptance of Deposits) Rule, 1975 published vide Notification No. G.S.R. 43(E) dt. 3-2-1975, Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India (Extraordinary) dated 3-2-1975, subsequently amended by Notification No. :—

1. S.O. 524(E) dated 18.9.1975
2. S.O. 684(E) dated 29.11.1975
3. G.S.R. 427(E) dated 29.6.1976
4. G.S.R. 820(E) dated 24.9.1976
5. G.S.R. 965(E) dated 29.12.1976
6. G.S.R. 385(E) dated 17.6.1977
7. G.S.R. 386(E) dated 17.6.1977
8. G.S.R. 424(E) dated 27.6.1977
9. G.S.R. 793(E) dated 20.12.1977
10. G.S.R. 200(E) dated 30.3.1978
11. G.S.R. 252(E) dated 27.4.1978
12. G.S.R. 341(E) dated 29.6.1978
13. G.S.R. 378(E) dated 17.7.1978
14. G.S.R. 586(E) dated 21.12.1978
15. G.S.R. 109(E) dated 21.3.1980
16. G.S.R. 185(E) dated 1.4.1980
17. G.S.R. 380(E) dated 24.6.1980
18. G.S.R. 435(E) dated 18.7.1980
19. G.S.R. 546(E) dated 24.9.1980
20. G.S.R. 187(E) dated 20.3.1981
21. G.S.R. 44(E) dated 12.1.1982
22. G.S.R. 286(E) dated 19.3.1985
23. G.S.R. 372(E) dated 19.4.1985
24. G.S.R. 482(E) dated 5.6.1985
25. G.S.R. 7(E) dated 2.1.1986
26. G.S.R. 358(E) dated 1.4.1987
27. G.S.R. 620(E) dated 1.7.1987
28. G.S.R. 850(E) dated 12.10.1987
29. G.S.R. 551(E) dated 7.6.1990
30. G.S.R. 39(E) dated 10.1.1992
31. G.S.R. 814(E) dated 19.10.1992
32. G.S.R. 744(E) dated 10.12.1993
33. G.S.R. 767(E) dated 1.12.1995
34. G.S.R. 155(E) dated 19.3.1997
35. G.S.R. 385(E) dated 25.5.2001
36. G.S.R. 689(E) dated 25.9.2001